

S.C.No.—M/22/2001114

B. A. EXAMINATION, 2022

(First Semester) (Re-appear)

MATHEMATICS

Solid Geometry

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 26

Note : Attempt Five questions all. All questions carry equal marks.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Unit I

इकाई I

1. (a) Find the length of the axes, the eccentricity and the equations of the axes of the conic

$$5x^2 + 6xy + 5y^2 + 4x + 12y - 4 = 0$$

शांकव $5x^2 + 6xy + 5y^2 + 4x + 12y - 4 = 0$ के अक्षों के समीकरण, उत्केंद्रता तथा अक्षों की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

- (b) Trace the conic : 5.2

$$9x^2 - 6xy + 17y^2 + 30x - 74y + 17 = 0$$

शांकव :

$9x^2 - 6xy + 17y^2 + 30x - 74y + 17 = 0$ को ट्रैस कीजिए।

2. (a) Prove that in general two parabolas can be drawn through four given points.

सिद्ध कीजिए कि सामान्य रूप में दो परवलय दिए गए चार बिन्दुओं से खींचे जा सकते हैं।

- (b) Prove that locus of the pole of a given straight line w.r.t. a system of confocal conic is a straight line. 5.2

सिद्ध कीजिए कि दी गई सरल रेखा के ध्रुव का बिंदु पथ कोन फोकल शांकव के निकाय के विशेष संदर्भ में एक सरल रेखा है।

Unit II

इकाई II

3. (a) Find the equations of the spheres which pass through the points $(4,1,0)$, $(2,-3,4)$, $(1,0,0)$ and touch the plane

$$2x + 2y - z = 11$$

गोले के समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु $(4, 1, 0)$, $(2, -3, 4)$ तथा $(1, 0, 0)$ से गुजरते हैं तथा समतल $2x + 2y - z = 11$ को स्पर्श करते हैं।

- (b) Find the limiting points of the co-axial system of spheres :

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 3y + 6 = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6y - 6z + 6 = 0. \quad 5.2$$

गोलों $x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 3y + 6 = 0$,

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6y - 6z + 6 = 0$$

के समाक्षीय प्रणाली का सीमित बिंदु ज्ञात कीजिए।

4. (a) Find the equation of the right circular cone whose vertex is at the origin, axis the line $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$, and which has a vertical angle of 60° .

उस लम्ब वृत्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, अक्ष रेखा

$$\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} \quad \text{है, और जिसका ऊर्ध्वाधर कोण } 60^\circ \text{ है।}$$

- (b) Find the equation of the right circular cylinder whose generators are parallel to the line $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ and passes through $x^2 + y^2 = 16, z = 0$. 5.2

उस लम्बवृत्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए

जिसकी जनक रेखा $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ के समान्तर हैं तथा $x^2 + y^2 = 16, z = 0$ से गुजरता है।

Unit III

इकाई III

5. (a) Find the equation of the tangent planes to $2x^2 - 6y^2 + 3z^2 = 5$ which passes through the lines $x + 9y - 3z = 0$, $3x - 3y + 6z - 5 = 0$.

स्पर्श रेखा समतलों $2x^2 - 6y^2 + 3z^2 = 5$ का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं $x + 9y - 3z = 0$, $3x - 3y + 6z - 5 = 0$ से गुजरता है।

- (b) Find the equation of the polar of the line $\frac{x-1}{5} = \frac{y-3}{7} = \frac{z+5}{2}$ w.r.t the conicoid $x^2 + 3y^2 - 7z^2 - 21 = 0$ in symmetrical form. 5.2

रेखा $\frac{x-1}{5} = \frac{y-3}{7} = \frac{z+5}{2}$ के ध्रुव का समीकरण सममितीय रूप में कोनिकाँयड $x^2 + 3y^2 - 7z^2 - 21 = 0$ के संदर्भ में ज्ञात कीजिए।

6. (a) Find the lengths of semi-axis of the sections of the paraboloid $2x^2 + y^2 - z = 0$ by the plane $x + 2y + z = 4$.

समतल $x + 2y + z = 4$ द्वारा परवलय $2x^2 + y^2 - z = 0$ के खण्डों की अर्धअक्ष की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

- (b) Find the equation of the enveloping cylinder of the conicoid $2x^2 + y^2 + 3z^2 = 1$ whose generators are parallel to the line $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}$. 5.2

कॉनिकाँयड $2x^2 + y^2 + 3z^2 = 1$ के एनवेलपिंग बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें जनक रेखा $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}$ के समानान्तर हैं।

Unit IV इकाई IV

7. (a) Prove that the normals from (α, β, γ) to the paraboloid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$ lie on the cone $\frac{\alpha}{x-\alpha} - \frac{\beta}{y-\beta} + \frac{a^2-b^2}{z-\gamma} = 0$.
सिद्ध कीजिए कि (α, β, γ) से परवलय $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$ तक नॉर्मल्स शंकु $\frac{\alpha}{x-\alpha} - \frac{\beta}{y-\beta} + \frac{a^2-b^2}{z-\gamma} = 0$ पर हैं।

- (b) Find the equations of the generating lines of the hyperboloid $yz + 2zx + 3xy + 6 = 0$ which pass through the point $(-1, 0, 3)$. **5.2**

अतिपरवलय $yz + 2zx + 3xy + 6 = 0$ की उत्पन्न करने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु $(-1, 0, 3)$ के माध्यम से गुजरता है।

- 8. (a)** Show that the two confocal paraboloids cut everywhere at right angles.

दर्शाइए कि दो कॉन्फोकल पैराबॉलॉयड समकोण पर प्रत्येक जगह काटता है।

- (b)** Find the co-ordinates of the vertex and equation to the axis of the hyperbolic paraboloid : **5.2**

$$4x^2 - y^2 - z^2 + 2yz - 8x - 4y + 8z - 2 = 0.$$

अतिश्योक्तिपूर्ण परवलयिक :

$$4x^2 - y^2 - z^2 + 2yz - 8x - 4y + 8z - 2 = 0$$

अक्ष के शीर्ष और समीकरण ज्ञात कीजिए।

Unit V

इकाई V

- 9. (a)** Define Enveloping Cone. **1.04**

एनवलपिंग शंकु की परिभाषा दीजिए।

- (b)** Find the centre and radius of the sphere : $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2x + 4y + 2z + 3 = 0$ **1.04**

गोले $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2x + 4y + 2z + 3 = 0$ के केन्द्र और क्रिया ज्ञात कीजिए।

- (c)** Define Conjugate points. **1.04**
- संयुग्म बिंदुओं की परिभाषा दीजिए।

- (d)** Find the nature of the conic : **1.04**
- $$5x^2 + 6xy + 5y^2 + 4x + 12y - 4 = 0$$

शांकव $5x^2 + 6xy + 5y^2 + 4x + 12y - 4 = 0$ की प्रकृति ज्ञात कीजिए।

- (e)** Define co-axial system of spheres. **1.04**
- गोलों की समाक्षीय प्रणाली को परिभाषित कीजिए।